

Dear Students

I do understand that many of you or your near and dear ones are down with COVID.

While for others it is a fear of getting trapped is quite worrisome.

At this hour , we may pray for the well being of one and all.

It is very important for you all to behave in a very mature manner and take the responsibility of the family, keep their moral high by engaging in constructive activities.

At the same time, you all have to prepare yourself for your upcoming exams, participate enthusiastically in all activities organised by the college from time to time.

As you all are aware that college is holding online elections tomorrow. As a responsible student, it is your duty to cast vote so that we are able to elect the best candidate in democratic manner. The students union always plays a very important role and during these challenging times they are playing a crucial role of even maintaining the connect between students community of the college , teachers and office..

I am sure you all will cast your vote tomorrow.

For final year students , I convey my best wishes for your future endeavours . We would like if you all remain connected with the college for upcoming years. Therefore you all must register yourself for lifelong alumni membership. We will always be happy to celebrate your success and support you in case of your distress.

Till we meet in person

Stay home, Stay happy and healthy!

With best wishes

Principal office

प्रिय छात्राओं,

वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, इस बात से मैं भलीभाँति परिचित हूँ कि आपके या आपके परिवार एवं प्रियजन तथा आसपास कई लोग COVID 19 महामारी के संकट से जूझ रहे हैं। बहुत से अन्य लोग इस महामारी से संक्रमित होने के भय से चिन्ता की स्थिति में भी हैं।

ऐसे विकट समय में, हम सभी एकसाथ मिलकर ईश्वर से सब की कुशलता की कामना करते हैं।

यह बहुत ज़रूरी है कि आप सभी परिपक्व एवं विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार करें, अपने परिवार की दैनिक कार्यों में जिम्मेदारी भी उठाएँ, साथ ही रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होकर अपने मनोबल को भी ऊँचा रखें। इसके साथ ही आप सभी को अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करना है, समय-समय पर कॉलेज द्वारा आयोजित सभी प्रकार की गतिविधियों में उत्साहपूर्वक तरीके से भाग भी लेना है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉलेज में कल ऑनलाइन चुनाव हो रहे हैं। एक जिम्मेदार विद्यार्थी के रूप में वोट करना आपका कर्तव्य है, ताकि हम लोकतांत्रिक तरीके से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चुनाव कर सकें। छात्र संघ सदैव सकारात्मक रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी छात्र संघ की पदाधिकारी छात्राएँ कॉलेज, शिक्षक, कार्यालय तथा छात्राओं के बीच संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुझे यकीन है कि आप सभी कल अपना वोट अवश्य डालेंगे।

अंतिम वर्ष की छात्राओं के लिए, मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। हम चाहेंगे कि आप सभी आगामी वर्षों में भी किसी न किसी रूप में कॉलेज से जुड़े रहें। इसलिए आप सभी एल्यूमनी सदस्यता के लिए अपना पंजीकरण अवश्य कराएँ। हम आपकी प्रत्येक सफलता में जहां बेहद आनंदित और गौरवांवित होंगे, वहीं आपकी हर परेशानी और संकट की स्थिति में आपको सहयोग करने में भी तत्पर रहेंगे।

आशा करते हैं कि हम जल्द ही प्रत्यक्ष मिलेंगे, तब तक घर पर रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें!

असीम शुभकामनाओं सहित

.....

प्राचार्या कार्यालय